

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४३५]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर २४, १९६६/वी३ ३, १८८८

No. 435]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24, 1966/PAUSA 3, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 22nd December 1966

S.O. 3964.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it to make orders under Clauses (c), (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act in relation to the prices, stocks and movements of cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable by the Government of Bihar.

This order shall remain in force upto the 30th April, 1967.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

Hay
Bhusa
Gowar
Karab or Karbi or Kadbi
Grass
Concentrates viz. By products of all Pulses,
Crushed Dal, Malze, Wheat Bran, Oats and Tuar.

This issues in supersession of the Government of India Notification S.O. No. 3512 dated 15th November, 1966.

[No. F. 12(21)/66-L.D. III]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

(1747)

